

समाचार वाणी

खबर जो करें असर !

नाशिक | Wednesday, 19 August 2026

अपना घर खरीदना हुआ आसान, देश के इन 4 बैंकों ने दे दी EMI में बंडी राहत ।

Publisher

Published on 09 Jun 2025



RBI की रेपो रेट कटौती के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक ने घटाई होम लोन दरे | EMI में सीधे राहत, घर खरीदने का सुनहरा मौका ।

नई दिल्ली : अगर आप अपना घर खरीदने का सपना देख रहे हैं, तो यह वक्त आपके लिए शानदार मौका है । **RBI** द्वारा लगातार दो बार रेपो रेट में की गई कटौती का सीधा असर अब होम लोन ग्राहकों तक पहुँच रहा है ।

हाल ही में **RBI** ने 7 जून को रेपो रेट में **0.50 फीसदी की कटौती** कर दी है । अब रेपो रेट घटकर **5.5 फीसदी** रह गया है । फरवरी 2025 से अब तक कुल **1 फीसदी** तक की कटौती हो चुकी है । इसका सीधा फायदा होम लोन लेने वालों को मिलने लगा है ।

देश के **चार बड़े बैंकों** ने अपनी ब्याज दरों में कटौती कर दी है, जिससे अब **होम लोन की EMI** सस्ती हो गई है । यह राहत नए ग्राहकों के साथ-साथ पुराने लोन धारकों को भी मिलेगी ।

बैंक ऑफ बड़ौदा : EMI में बंडी कटौती

बैंक ऑफ बड़ौदा ने **RBI की रेपो रेट कटौती** का लाभ सीधे ग्राहकों तक पहुँचा दिया है । बैंक ने अपने **Repo Linked Lending Rate (RLLR)** को **8.15 फीसदी** कर दिया है, जो पहले के मुकाबले 50 बेसिस पॉइंट कम है ।

बैंक की वेबसाइट के अनुसार, होम लोन की शुरुआती ब्याज दर अब 8 फीसदी है । इससे अब **EMI** में अच्छी खासी राहत

मिलेगी।

पंजाब नेशनल बैंक (PNB): EMI और सस्ती

PNB ने अपनी RLLR को 8.85 फीसदी से घटाकर 8.35 फीसदी कर दिया है। यह बदलाव 9 जून से लागू होगा।

PNB के मुताबिक, अब होम लोन पर शुरुआती ब्याज दर केवल 7.45 फीसदी होगी।

वाहन लोन पर भी राहत दी गई है, जिस पर अब केवल 7.80 फीसदी सालाना ब्याज देना होगा।

बैंक ऑफ इंडिया : EMI घटेगी

बैंक ऑफ इंडिया ने भी RLLR में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। नई दर अब 8.35 फीसदी हो गई है।

बैंक के अनुसार, इस बदलाव से लोन ग्राहकों की EMI में और कमी आएगी।

यूको बैंक : MCLR में राहत

यूको बैंक ने MCLR में 10 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। नई दरें 10 जून से प्रभावी होंगी।

इस कटौती का फायदा खासकर उन ग्राहकों को मिलेगा जिनके लोन MCLR आधारित हैं।

कम EMI, ज्यादा बचत

लगातार दो बार की रेपो रेट कटौती का असर अब सीधे ग्राहकों तक पहुँच रहा है।

RLLR आधारित होम लोन धारकों की EMI अब पहले से कम हो गई है।

घर खरीदने का सपना अब और आसान हो गया है, क्योंकि EMI में बचत के चलते ग्राहकों पर आर्थिक बोझ कम होगा।

ऐसी ही देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए फॉलो करें: www.samacharwani.com

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsoever.